

Product Developed Under the Guidance of Dr. Kanhaiya Lal Kachhawa (M.B.B.S.,M.D. Psychiatry)

Drk.



Dr.Kanhaiya Lal Kachhawa
(M.B.B.S. , M.D. Psychiatry)

customer care : 8209052683, 8209053432.
website : www.drkanhaiya.in
email : kanhaiyakachhawa90@gmail.com
address : 6-Gha-25,Pawan puri, South extension,
Bikaner Rajasthan-334003.

Product Developed & Marketed By :
SK BRAIN CARE & NEURO SCIENCE CENTER.



जय हिंद जय भारत

About....

Dr. Kanhaiya Lal Kachhawa. He has done MBBS and MD in psychiatry from SARDAR PATEL MEDICAL COLLEGE, Bikaner, Rajasthan. Worked as consultant in PBM hospital Bikaner. He is Director of "S.K. Brain Care and Neuro Science Centre". Apart from his consultation in hospital and at clinic, Dr. Kanhaiya also gives teachings of psychiatry to pre PG aspirants.

His aim is to make aware common person about their physical & mental health so that they should Make their life more Meaningful & live with beautiful mind. His specialization is in treating all psychiatry problem. His excellence is on treating with C.B.T. (cognition behavior techniques), E.RP techniques and mastery on neuroplasticity treatments.

He is known for his public speaking abilities and is a life coach trainer. He regularly conducts workshop on different aspects of mental health on various platforms. From time to time he also educates students by regularly organizing counseling for different groups for their relevant problems. He also gives teachings training skills in various social platforms.

BENEFITS OF MIND TONIC

- A) BRAHMI :
 - Reduces Anxiety & Stress.
 - Treatment of Insomnia.
 - Intelligence Booster.
- B) SHANKPUSHPI :
 - Improves Cognitive Functioning.
 - Reduces Mental Fatigue.
 - Useful for treating different types of psychotic problems like depression, dementia, restlessness, etc.
 - Prevents Headache.
- C) SWARN BHASMA :
 - Depression (If aggressive behavior, then it should be given along with Mukta Pishti).
 - Generalized anxiety disorder.
- D) GHODH BACH (CALAMUS) :
 - Increase the body resistance to diseases.
 - Fight From depression.
- E) USTEKHADDUS :
 - Ustukhaddus is good for Brain weakness and headache.
 - Relief in migraine.
 - Helpful in Melancholia.
 - Protect from Brain stroke.
- F) ASHWAGANDHA :
 - Reduce stress level.
 - Help fight symptoms of anxiety and depression.
- G) MALKANNGINI :
 - Mental confusion.
 - Cognitive defects.
 - Anxiety.
- H) SOUNF (FENNEL SEEDS):
 - It Helps Boost Your Work Ethic & Personal Stability.
 - It Leads to Improved Physical Health.
 - Mind Clarity.
 - You Get Better Sleep.
- I) PUSHKARMOOL :
 - It helps in the stimulation of the nervous system and the brain.
 - Helpful for women with menstrual problems.
 - The herb is helpful in stimulation the nervous system and the brain.
- J) GANJMAN :
 - Circulation enhancer, anti-inflammatory, blood purifier and diuretic.
 - It is natural cure for bipolar disorder, Mental Tensions and Promotes Mental Relaxation.
- K) JATAMANSI :
 - Useful to manage the symptoms of anxiety.
 - Helps to manage the symptoms.
 - Insomnia.
- L) SHATAVAR :
 - It has antioxidant properties.
 - It may help boost your immune system.
 - It may help treat depression.
 - It may help manage blood sugar.
- M) SUGANDBALA :
 - Reducing spasms.
 - Reducing flatulence.
 - Soothing the nervous system.
- N) PRAVAL PISHTI :
 - It is a good cardio-protective and brain tonic that calms the mind.
 - Boosts immunity.
 - Relieves digestive Anomalies.
- O) JAHARMOHRA PISHTI :
 - It reduces irritability and tetany
 - It is a cooling in action.
 - Its intake relieves body irritation.
- P) MUKTA PISHTI :
 - It is used in the treatment of mania, psychosis, depression.
- Q) BAL BACH :
 - Useful in anxiety.
 - Control of wind ,cough, & anxiety.
- R) SUDH BACH :
 - Helps in stress & anxiety.
 - Helps in treating sadness & mood alteration.

- अधिकतर चीलक के रस
- ए) क्वाली :
 - विना और तनाव को कम करता है।
 - अधिकतम मन प्रभाव है।
 - इंटेलिजेंस सुड्ड है।
- बी) शकपुष्पी :
 - अवसादक तनावकारी में सुधार करता है।
 - मादात्मक तनाव को कम करता है।
 - मित्रता को प्रभाव है।
- सी) स्वर्ण बसम :
 - अवसाद (असह्यक व्यवहार से जो जो मूलतः हिंसा के आवेग से उत्पन्न है।)
 - अवसादग्रस्त विना हिंसा है।
 - अवसादग्रस्त से भी प्रभाव है।
 - जोश के भी चला कर संतुलित कराने को सक्षम है।
- डी) घुड़ घास (कालमस) :
 - अवसाद से रक्षक है।
- ई) उस्तकहड्डस :
 - मज्जीन में सुधार।
 - अवसादग्रस्त में सुधार।
 - एक) अश्वगंधा :
 - तनाव को कम करने में सक्षम है।
 - विना और अवसाद के रसमों को रक्त से मुक्त करता है।
 - जी) शकपुष्पी :
 - कर्मांतर सुधारित।
 - अवसादग्रस्त को रक्षक।
 - विना
 - एच) शतावर :
 - तनाव को कम करने में सक्षम है।
 - तनाव और अवसाद के रसमों को रक्त से मुक्त करता है।
 - तनाव को कम करने में सक्षम है।
 - तनाव को कम करने में सक्षम है।
 - आई) सुकर्मूल :
 - तनाव को कम करने में सक्षम है।
 - तनाव को कम करने में सक्षम है।
 - तनाव को कम करने में सक्षम है।
 - तनाव को कम करने में सक्षम है।
 - जे) गन्जमन :
 - तनाव को कम करने में सक्षम है।
 - तनाव को कम करने में सक्षम है।
 - तनाव को कम करने में सक्षम है।
 - तनाव को कम करने में सक्षम है।
 - के) जतमन्सी :
 - तनाव को कम करने में सक्षम है।
 - तनाव को कम करने में सक्षम है।
 - तनाव को कम करने में सक्षम है।
 - के) शतावर :
 - तनाव को कम करने में सक्षम है।
 - तनाव को कम करने में सक्षम है।
 - तनाव को कम करने में सक्षम है।
 - तनाव को कम करने में सक्षम है।
 - एल) शतावर :
 - तनाव को कम करने में सक्षम है।
 - तनाव को कम करने में सक्षम है।
 - तनाव को कम करने में सक्षम है।
 - तनाव को कम करने में सक्षम है।
 - एम) सुकर्मूल :
 - तनाव को कम करने में सक्षम है।
 - तनाव को कम करने में सक्षम है।
 - तनाव को कम करने में सक्षम है।
 - तनाव को कम करने में सक्षम है।
 - एन) सुकर्मूल :
 - तनाव को कम करने में सक्षम है।
 - तनाव को कम करने में सक्षम है।
 - तनाव को कम करने में सक्षम है।
 - तनाव को कम करने में सक्षम है।
 - ओ) जहर्मोहरा पिष्टी :
 - तनाव को कम करने में सक्षम है।
 - तनाव को कम करने में सक्षम है।
 - तनाव को कम करने में सक्षम है।
 - तनाव को कम करने में सक्षम है।
 - पी) मुक्ता पिष्टी :
 - तनाव को कम करने में सक्षम है।
 - तनाव को कम करने में सक्षम है।
 - तनाव को कम करने में सक्षम है।
 - तनाव को कम करने में सक्षम है।
 - क्व) सुध बच :
 - तनाव को कम करने में सक्षम है।
 - तनाव को कम करने में सक्षम है।
 - तनाव को कम करने में सक्षम है।
 - तनाव को कम करने में सक्षम है।
 - आ) सुगंधबाला :
 - तनाव को कम करने में सक्षम है।
 - तनाव को कम करने में सक्षम है।
 - तनाव को कम करने में सक्षम है।
 - तनाव को कम करने में सक्षम है।
 - आर) सुगंधबाला :
 - तनाव को कम करने में सक्षम है।
 - तनाव को कम करने में सक्षम है।
 - तनाव को कम करने में सक्षम है।
 - तनाव को कम करने में सक्षम है।

Dr.kanhaiya Lal Kachhawa. Add. 6-gha-25, Pawan Puri South Extension, Bikaner Rajasthan. 334003.